

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोंडा दिनांक 07.01.2023**

### **शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### **02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोंडा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कोनगर पुलिस ने 01, थाना कौडिया पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

#### **01. थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. अनुराग पुत्र राजेंद्र चौहान निवासी ग्राम ढोढिया पारा थाना वजीरगंज जनपद गोंडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 07/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 07.01.2023**

**ऑपरेशन मुस्कान के तहत पिछले 24 घण्टे में पसका मेला में परिजनों से विछडे 03 गुमशुदा बच्चों को सकुशल उनके परिजनों को किया सुपुर्द, अपनों से मिलकर बच्चों व परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने "ऑपरेशन मुस्कान" के तहत अभियान चलाकर गुमशुदा लड़के/लड़कियों की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। जिसके क्रम में थाना परसपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

पसका मेला में भारी संख्या में सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। इस हेतु सम्पूर्ण पसका मेला क्षेत्र में समुचित पुलिस प्रबन्ध किये गये हैं तथा पुलिस बल द्वारा मेला में आये भक्तगण के सुरक्षित स्नान हेतु निरन्तर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इसी दौरान पिछले 24 घण्टे में 03 बच्चे अलग अलग जगहों से 01. आंशिका यादव उम्र 06 वर्ष 02. रुद्राक्षी उम्र 04 वर्ष 03. वैष्णवी उम्र 04 वर्ष अपने माता-पिता/ परिजनों से विछड़ गये थे जो रोते हुए गुमशुदा अवस्था में पुलिस को मिली थी जो कुछ भी ठीक से अपने बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे थे। ड्यूटी पर तैनात चौकी प्रभारी दिनेश राय द्वारा तत्काल बच्चों को अपने संरक्षण में लेकर परिजनों की काफी खोजबीन की गयी। चौकी प्रभारी के अथक प्रयास से तीनों गुमशुदा बच्चों को उनके परिजनों को खोज कर सुपुर्द किया गया। बच्चों से मिलकर परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौटी तथा परिजनो ने गोण्डा पुलिस को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। पुलिस के उक्त मानवीय कार्य की आम जनमानस में काफी सराहना की जा रही है।